

1 मई, 2022 से शुरू, 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी योग्य कैलिफ़ोर्नियावासी मुफ्त फुल-स्कोप Medi-Cal प्राप्त कर सकते हैं अप्रवास स्थिति की परवाह किए बिना! लोग फुल-स्कोप Medi-Cal के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं यदि वे गैर-दस्तावेजी हैं।

मैं फुल-स्कोप Medi-Cal में नामांकन कैसे करूँ?

प्रतिबंधित दायरे में नामांकित लोग Medi-Cal ("आपातकालीन Medi-Cal") 1 मई, 2022 से शुरू फुल-स्कोप Medi-Cal को स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेगी। आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य सभी लोग Medi-Cal के लिए अपने स्थानीय काउंटी कल्याण कार्यालयों में और Covered CA के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

- BenefitsCal.com के माध्यम से अपनी काउंटी कार्यालय से संपर्क करें।
- <http://dhcs.ca.gov/COL> पर अपनी काउंटी कार्यालय की जानकारी प्राप्त करें।
- CoveredCA.com और (800) 300- 1506 पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए आवेदन करें।
- www.localclinic.net पर या सामुदायिक स्वास्थ्य नेविगेटर के साथ सामुदायिक क्लिनिक में आवेदन करने में सहायता प्राप्त करें।

Medi-Cal में आज ही नामांकन करें! यदि आप आवेदन करते हैं और प्रतिबंधित दायरे Medi-Cal में नामांकित हैं, तो आपको 1 मई को फुल-स्कोप Medi-Cal मिलेगा।

यदि मुझे किसी अन्य भाषा में सहायता की आवश्यकता हो तो क्या होगा?

आपको दुभाषियों सहित मुफ्त भाषा सहायता सेवाओं का अधिकार है।

अपनी भाषा में मदद के लिए अपनी काउंटी या Covered CA से पूछें।

फुल-स्कोप Medi-Cal के साथ मुझे कौन-सी स्वास्थ्य देखभाल मिल सकती है?

Medi-Cal रोगनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल और वार्षिक जांच को पूरा करती है। आप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार सेवाएं, डॉक्टर की लिखी हुई दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति, परिवहन, घर में व्यक्तिगत सहायता, दंत और दृष्टि (आंख) की देखभाल, पैरों की देखभाल, श्रवण यंत्र, दीर्घकालिक देखभाल, और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

क्या Medi-Cal मेरी अप्रवास स्थिति को नुकसान पहुंचाएगी?

नहीं। Medi-Cal (दीर्घकालिक देखभाल को छोड़कर) का उपयोग करने से आपकी अप्रवास स्थिति को नुकसान नहीं होगा। संघीय सरकार कई अप्रवासियों के लिए सार्वजनिक शुल्क निर्धारण में Medi-Cal पर विचार नहीं करती है। यदि आपके अपने Medi-Cal लाभों और अपनी अप्रवास स्थिति के बारे में अधिक प्रश्न हैं, तो स्वास्थ्य उपभोक्ता गठबंधन से संपर्क करें।

क्या Medi-Cal मेरा घर ले सकती है?

नहीं। Medi-Cal आपका घर नहीं लेगी। जो लोग Medi-Cal की दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं प्राप्त करते हैं, उनके लिए Medi-Cal आपकी मृत्यु के बाद ही देखभाल की लागत वसूल करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन आपकी संपत्ति की सुरक्षा के तरीके हैं। मदद के लिए स्वास्थ्य उपभोक्ता गठबंधन से संपर्क करें।

अगर मैं 1 मई, 2022 के बाद 50 साल का हो जाऊं तो क्या होगा?

यदि आप मई 2022 में किसी भी समय 50 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपका फुल-स्कोप कवरेज 1 मई, 2022 तक वापस चला जाएगा। अगर आप मई 2022 के बाद 50 साल के हो जाते हैं, तो आपका फुल-स्कोप कवरेज उस महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाएगा जिस महीने आप 50 साल के हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अगस्त 2022 में किसी भी समय 50 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपको 1 अगस्त, 2022 से शुरू फुल-स्कोप Medi-Cal प्राप्त होगा।

क्या होगा यदि Medi-Cal मेरे आवेदन को अस्वीकार कर

देती है?

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए स्वास्थ्य उपभोक्ता गठबंधन से संपर्क करें।

स्वास्थ्य उपभोक्ता गठबंधन राज्यव्यापी टोल फ्री 1.888.804.3536

Healthconsumer.org